

आदिम जमाती विकास कार्यक्रमाखाली मंजूर
केलेली घरकुले शबरी आदिवासी घरकुल
योजनेचे निकषानुसार बांधण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: आदिम-२०१७/प्र.क्र.१३/का-१९
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२
तारीख: ०६/०२/२०१७

वाचा-

- १) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: घरकुल-२०१२/प्र.क्र.३८(भाग-१)/का.१७,
दि.२८/०३/२०१३
- २) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: घरकुल-२०१२/प्र.क्र.३८(भाग-१)/का.१७,
दि.०७/०८/२०१४
- ३) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: घरकुल-२०१५/प्र.क्र.२१०/का.१७,
दि.०५/०१/२०१६
- ४) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: इंआयो-२०१५/प्र.क्र.४१३/योजना-१०,
दि.१०/०२/२०१६
- ५) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: घरकुल-२०१६/प्र.क्र.३७/का.१७,
दि.१५/०३/२०१६
- ६) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: आदिम-२०१५/प्र.क्र.८९/का.१९,
दि.३०/०१/२०१६

प्रस्तावना-

आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पीत असलेल्या रू. २०.०० कोटी इतक्या निधीपैकी ७०% प्रमाणे बीडीएस वर उपलब्ध असलेला रू. १४.०० कोटी इतका निधी आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता घरकुले बांधण्याकरीता संदर्भ क्र. ६ वरील शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेला आहे. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री ग्रामिण आवास योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसह सामाजिक न्याय विभागाची रमाई आवास योजना, या विभागाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना, गृहनिर्माण विभागाची राजीव गांधी निवारा योजना क्र. १ व २ तसेच इतर घरकुल योजनांची प्रभावी अंमलबजवणी व संनियंत्रण होण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ वरील शासन निर्णयान्वये “राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामिण गृहनिर्माण” स्थापन करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामिण भागातील घरकुलांसाठी या विभागाने शबरी आदिवासी घरकुल योजनेमध्ये दि.१५/०३/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा केलेली आहे. त्यानुसार आदिम जमाती विकास कार्यक्रमाखालील घरकुलांचे बांधकाम शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या निकषानुसार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय-

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन यापुढे आदिम जमाती विकास कार्यक्रमाखालील मंजूर केलेली घरकुले शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या संदर्भ क्र. १, २, ३ व ५ वरील अनुक्रमे दि. २८/०३/२०१३, ०७/०८/२०१४, ०५/०१/२०१६ व १५/०३/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या निकषानुसार बांधण्यात यावीत.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०२०६१५००४५४९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रभाकर बा. गावडे)

उपसचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३५
२. मा. सभापती, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई.
३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई.
४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
५. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव.
६. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव.
७. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव.
८. सर्व विधानसभा/ विधान परीषद सदस्य.
९. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
१०. मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
११. मा. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक.
१२. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई.
१३. मा. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
१४. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्रविकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला संकुल मुंबई
१५. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पू.) मुंबई.

१६. सर्व मंत्रालयीन विभाग
१७. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर.
१८. अधिदान व लेखा लेखाधिकारी, मुंबई.
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
२०. सर्व विभागीय आयुक्त.
२१. सर्व जिल्हाधिकारी.
२२. सर्व महानगरपालिका आयुक्त.
२३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
२४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक.
२५. आयुक्त, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
२६. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२७. सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा.
२८. सर्व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास.
२९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
३०. सर्व मुख्याधिकारी नगरपालिका/ नगरपरीषद.
३१. राज्य संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामिण गृहनिर्माण, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई.
३२. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.
३३. सर्व उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
३४. सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
३५. निवड नस्ती-कार्यासन-१९.